



1- अवैध तमंचा के साथ 01 गिरफ्तार थाना सिविल लाइंस-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 12-01-2023 को उप निरीक्षक श्री अनुज कुमार थाना सिविल लाइंस द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त नौशाद पुत्र इरशाद निवासी मुफ्तीटोला थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को एक अवैध तमन्चा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर मु0अ0सं0 - 27/2023 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

2- थाना भगतपुर पुलिस द्वारा गांजे के साथ 02 तस्कर गिरफ्तार किये गये:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इनमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12-01-2023 को उप निरीक्षक श्री मोहित कुमार व श्री सुनील कुमार थाना भगतपुर द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त 01- युसुफ पुत्र कल्वे अली निवासी ग्राम तुमडिया कला थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद व 02- रुकसाद पुत्र अशफाक निवासी ग्राम तुमडिया कला थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को 1500-1500 ग्रा0 गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0- 09, 10/2023 धारा 8/20 NDPS ACT. पंजीकृत किये गये हैं।

3- नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के बाल अपचारी को हिरासत में लेकर थाना कटघर पुलिस द्वारा मा0 किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया-

अवगत कराना है कि दिनांक 14-12-2022 को वादी निवासी थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ देने के संबंध में थाना कटघर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 758/2022 धारा 354ख भादवि व धारा 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 12-01-2023 को उपनिरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह राठी द्वारा वांछित बालअपचारी को हिरासत में लेकर मा0 किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4- पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त गिरफ्तार, थाना बिलारी-

अवगत कराना है कि दिनांक 11-01-2023 को थाना बहजोई जनपद संभल के मुकदमें से संबंधित आरोपी अमर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी कस्बा व थाना धनारी जनपद संभल के, जनपद संभल पुलिस अभिरक्षा से मौके का फायदा उठाकर भाग जाने की सूचना पर प्रभावी कार्रवाई करते हुये निरीक्षक श्री राजेश यादव थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद द्वारा अभियुक्त अमर सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 - 14/2023 धारा 224 भादवि पंजीकृत किया गया है।

5- आपराधिक षडयंत्र रचकर हत्या करने से सम्बन्धित प्रकाश में आया 01 और आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.11.2022 को वाल्मीकी बस्ती मोहल्ला मनिहारन थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद में अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र रचकर एक राय होकर विशाल उर्फ एकॉन रायकोटी की गोली मारकर हत्या कर देने एवं परिवार वालो द्वारा मुल्जिमानो को रोकने पर गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग जाने के सम्बन्ध में मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 529/2022 धारा 302/120बी/504/506 भा0द0वि0, 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये पूर्व में 03 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 12-01-2023 को उपनिरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना ठाकुरद्वारा, द्वारा प्रकाश में आये आरोपी राजू उर्फ राजीव पुत्र नरसिंह निवासी कमालपुरी खालसा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

6- दहेज हत्या के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वारा-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.01.2023 को वादिनी निवासिनी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर हुए दहेज की मांग करने व मांग पूरी न होने पर वादिनी की पुत्री की हत्या कर देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 -21/2023 धारा-498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 12.01.2023 को उपनिरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार, थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से वांछित आरोपी 1. योगराज पुत्र जयपाल सिंह, 2. जयपाल सिंह पुत्र बाबुराम सिंह निवासीगण पीपली घनश्याम थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

7- अवैध तमंचों सहित 02 गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री व उपयोग पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12-01-2023 को उपनिरीक्षक श्री सोहनपाल सिंह, थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस की मदद से अभियुक्तगण 1. नईम उर्फ समीर पुत्र मौ0 अली निवासी ढकियाजट थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद 2. मुल्ला लईक पुत्र सद्दीक निवासी वार्ड नं0 17 कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद को 01-01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01-01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 22, 23/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

8- सरकारी कार्य बाधित करने का प्रकाश में आया 01 और आरोपी गिरफ्तार, थाना नागफनी-

अवगत कराना है कि दिनांक 25-10-2022 को अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौच कर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुये पुलिस पर हमला करने के संबंध में थाना नागफनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/22 धारा-147/149/504/332/353/352 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के संबंध में प्रचलित विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12-01-2023 को उपनिरीक्षक श्री ओमपाल सिंह द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से प्रकाश में आये अभियुक्त शाहरुख पुत्र छुटुआ निवासी नबाबपुरा थाना नागफनी जनपद-मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। थाना नागफनी पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 03 अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है।